

- 1- इंडियन स्प्रींटर हिमा दास (जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है) ने चेक गणराज्य के नोव मेस्टो में सीज़न-सर्वश्रेष्ठ समय (52.09 सेकंड) के साथ 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यह जुलाई महीने में हिमा का 5 वां गोल्ड है।
- 2- भारतीय बॉडी बिल्डर रविंदर कुमार मलिक ने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता है। उन्हें काठमांडू में 12 वीं दक्षिण एशियाई बॉडीबिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में चैंपियन का ताज पहनाया गया है।
- 3- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह पिछले छह वर्षों के दौरान 2013-14 में 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 64.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें 79 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
- 4- DefExpo India - 2020 का ग्यारहवां द्विवार्षिक संस्करण पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी 2020 में आयोजित जायेगा।
- 5-भारत के राष्ट्रपति ने छह राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल अब उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल होंगी, जबकि बिहार के राज्यपाल रहे लाल जी टंडन को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है। फागू चौहान लाल जी टंडन की जगह बिहार के राज्यपाल होंगे। जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है जबकि रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। आर. एन. रवि नागालैंड के नए राज्यपाल होंगे।
- 6- दिल्ली की तीन बार की मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद शनिवार दोपहर को निधन हो गया। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक 15 साल तक दिल्ली की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली मुख्यमंत्री रहीं।
- 7- दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने दिल्ली ट्रेफिक पुलिस के इस्तेमाल के लिए नया ई-चालान सिस्टम और ई-पेमेंट गेटवे लॉन्च किया। ई-चालान उपकरणों को सक्रिय जीपीएस के साथ सक्षम किया जाता है जहां चालान अधिकारी और उल्लंघनकर्ता दोनों को एक विशेष भू-स्थान पर लॉग इन और ट्रैक किया जा सकता है।
- 8- मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के बारे में कुछ भी जानना आसान हो गया है क्योंकि एक क्लिक से ही इस नगरी के तीज-त्योहारों से लेकर यहां के खान-पान और पर्यटन स्थलों की जानकारी हासिल की जा सकेगी। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया एवं वन इंडिया प्रोग्राम के तहत एनआईसी ने यह वेबसाइट तैयार की है। डब्ल्यूडब्ल्यूबडब्ल्यूग्वालियरडॉटएनआईसीडॉटइन वेबसाइट एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे वन इंडिया वन पोर्टल की थीम पर तैयार किया गया है।



Write us -
content@mahendras.org